

# APM FINVEST LIMITED

**Corporate Office:** 910, Chiranjiv Tower-43, Nehru Place, New Delhi-110019  
**Phone:** (011) 26441015-17, **Fax:** (011) 26441018, **Email:** apmfinvestltd@gmail.com  
**CIN No.:** L65990RJ2016PLC054921, **Website:** www.apmfinvest.com

---

October 30, 2020

**BSE Limited**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Fort, Mumbai - 400001

**Ref: Stock Code 542774**

**Sub: Submission of copies of Newspaper Advertisement- Notice of Board Meeting**

Dear Sir,

In continuation of our letter dated October 29, 2020, we enclose copies of the advertisements published on October 30, 2020, in "Business Standard" (English) and "Seema Sandesh" (Hindi) with respect to Notice of Board Meeting scheduled to be held on November 07, 2020.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For **APM Finvest Limited**

*Nidhi*

**Nidhi**  
**Company Secretary**



**Encl: as above**



### CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

Registered & Corporate Office: 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013  
 Circle Office: Capri Global Capital Limited 2nd Floor, 3B Fusa Road Rajendra Place, New Delhi-110005

#### DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The undersigned is the Authorized Officer of Capri Global Capital Limited (CGCL) under Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 (the said Act). In exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorized Officer has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower(s) (the "said Borrower(s)"), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them that are also given below. In connection with above, Notice is hereby given, on one hand, to the said Borrower(s) to pay to CGCL, within 60 days from the publication of this Notice, the amounts indicated herein below, together with further applicable interest from the date(s) mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged to CGCL by the said Borrower(s) respectively.

S.N.	Name of the Borrower(s)/ Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of secured asset (Immovable Property)
1.	(Loan Account No. LNCGPANTL000004054 of our Panipat Branch) Jitender Sharma (Borrower) Naina Trivedi, Jony, Saroj (Co-Borrower)	19-10-2020 Rs. 56,53,816/-	All Piece and Parcel of House No. 195-C, Ward No. 10 (As per House Tax Assessment) area admeasuring 191.5 Sq. Yds. situated at Arbijal residential area of Hanuman Nagar adjoining B.D.O. office Gannaur, Tehsil Sonapat, District Sonapat, Haryana. Construction Thereon present and future Both. Boundaries as under :- North: Plot of Batra Brothers South: House of Nirmala East: Wall of B.D.O. Office West: Gali

If the said Borrowers shall fail to make payment to CGCL as aforesaid, CGCL shall proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrowers as to the costs and consequences. The said Borrowers are prohibited under the Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of CGCL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Act shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.  
 Place :- Sonipat Date :- 30.10.2020 Sd/- (Authorized Officer) For Capri Global Capital Limited

### APM FINVEST LIMITED

Regd. Off: SP-147, RICO Industrial Area, Bhiwadi, Dist. Alwar, Rajasthan-301019  
 Ph: 01493-265400, Fax: 01493-265413, CIN: L65990RJ2016PLC054921  
 E-mail id: apmfinvestltd@gmail.com, Website: www.apmfinvest.com

#### NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Saturday, November 07, 2020, inter-alia**, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020 (the "Financial Results"). A copy of this Notice and Financial Results shall also be available at the Company's website [www.apmfinvest.com](http://www.apmfinvest.com) and the website of the Stock Exchange [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

**Place: New Delhi**  
**Date: October 29, 2020**

**For APM Finvest Limited**  
**Nidhi**  
**Company Secretary**

### Bank of Maharashtra

Noida Zonal Office  
 RN - 09/62, C Block, Rasoolpur Nawada, Industrial Area, Sector 62, Noida, Uttar Pradesh 201301  
 Email: dzmnoida@mahabank.co.in

Head Office: LOKMANGAL, 1501, SHIVAJINAGAR, PUNE-400005

29/10/2020

#### AX68/Recovery/2020/R1

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the All Known and Unknown Legal Heirs of **Late Mr. Amit Sharma (Borrower)** that the below described immovable property/ies mortgaged to the Bank of Maharashtra, the constructive possession of which has been taken by the Authorized Officer of Bank of Maharashtra, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 1/12/2020 for recovery of **Rs 18,42,869/- (Rupees Seventeen lakh ninety thousand five hundred twenty one only)** Plus interest with monthly rest including penal interest w.a.f. **06.05.2019** due to the Bank of Maharashtra from **Late Mr Amit Sharma S/o Shri Salik Ram Sharma** The reserve price will be **Rs. 59.27 lakhs (Rupees Fifty Nine lakh Twenty Seven Thousand only)** and the earnest money deposit will be **Rs 5.9 lakhs (Rupees Five lakh Ninety Thousand only)**.

**Short Description of the Immovable Property**  
 Residential property House no 143, Block -B, Sector -36, Greater Noida, Uttar Pradesh in the name of **Mr. Amit Sharma s/o Sri Salik Ram Sharma, admeasuring 198 sq. mt**

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link <https://www.bankofmaharashtra.in/proposal.asp> provided in the Bank's website and also on E-bikray portal ([www.tbapil.in](http://www.tbapil.in)).

**Date : 29.10.2020**  
**Place : Noida**

**Authorised Officer**  
**Bank of Maharashtra**

## PUBLIC NOTICE

### GOLDEN OPPORTUNITY

Delhi Division, Northern Railways is providing the facilities for loading and unloading of various commodities from two (2) newly notified Goods sheds at Ballabhgarh (BVH), Haryana & Okhla (OKA), Delhi Which can be utilized by the interested customers.

Interested customers may kindly contact on the following numbers for any further information:

1. Delhi Control: 9717649915
2. Commercial Inspector/Ballabhgarh & Okhla : 9958886632

**Security Helpline No. 182**  
**Integrated Helpline No. 139**

### NORTHERN RAILWAY

Your Convenience - Our Concern  
 Visit us at : [nr.indianrailways.gov.in](http://nr.indianrailways.gov.in)  
 Please join us on

### WE UNDERSTAND OUR RESPONSIBILITY AND COMMITMENT TO FULFILL DREAMS

**Aavas Financiers Limited**  
 (CIN: L65922RJ2011PLC034297)  
 Regd. Office: 201-202, 2nd Floor, Southend Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur-302020, Rajasthan (INDIA)  
 Phone No. : +91-141-4659239, Fax No. : +91-141-6618861, Website : [www.aavas.in](http://www.aavas.in)

#### Statement of unaudited Standalone financial results for the quarter ended September 30, 2020

Sl No.	Particulars	Quarter ended September 30, 2020 (Unaudited)	Half Year ended September 30, 2020 (Unaudited)	Quarter ended September 30, 2019 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	27,040.38	50,399.81	23,123.77
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	8,460.74	14,783.32	9,096.98
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8,460.74	14,783.32	9,096.98
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,618.76	11,626.49	7,600.56
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6,654.78	11,662.51	7,607.23
6.	Equity Share Capital	7,838.41	7,838.41	7,816.84
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	2,01,961.10*	2,01,961.10*	1,75,885.14**
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (EPS for the quarter/ half year are not annualised)			
1.	Basic:	8.45	14.84	9.73
2.	Diluted:	8.37	14.71	9.62

\* As on March 31, 2020  
 \*\* As on March 31, 2019  
 Notes:  
 (i) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on October 29, 2020 and subjected to limited review by the statutory auditors of the Company.  
 (ii) Key consolidated financial information:

Particulars	Quarter ended September 30, 2020 (Unaudited)	Half Year ended September 30, 2020 (Unaudited)	Quarter ended September 30, 2019 (Unaudited)
Total Income from operations	2,7045.95	50,411.26	23,128.06
Profit before tax	8,441.48	14,748.94	9,100.99
Net profit after tax	6,604.46	11,600.98	7,603.69

(iii) The above is an extract of the detailed format of quarterly & half yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly & half yearly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange, [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of the Company i.e. [www.aavas.in](http://www.aavas.in).  
 (iv) Figures for the previous year/period have been regrouped and / or reclassified wherever considered necessary.

**For AAVAS FINANCIERS LIMITED**  
 Sd/-  
 Sushil Kumar Agarwal  
 Managing Director & CEO

Place: Jaipur  
 Date: Oct 29, 2020

Long term rating CARE **AA- (Stable)** Long term rating ICRA **AA- (Stable)** States **11** Branches **259** Employees **4503**

**1800-20-888-20 • www.aavas.in**

### BRANCH, Mansoorpur, Village & Po. Mansoorpur, Teh: Khatauli Distt. Muzaffarnagar-251203

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)  
 (As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the **BANK OF BARODA**, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice calling upon the Borrower/Guarantors as given below to repay the amount mentioned below within 60 days from the receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section (4) of section 13 of the act read with rule 8 of the security Interest Enforcement Rules, 2002 on the date mentioned below against their names. The Borrower/Guarantors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property, and any dealings with the property will be subject to the charge of **BANK OF BARODA, MANSOORPUR, BRANCH** for the amount detailed below and interest together with expenses thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-section 8 of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of the Borrowers/Guarantors	Description of Immovable Property	Date of Demand Notice	Outstanding Amount
<b>Borrower:</b> M/s. Utsav Dairy Farm Private Limited through its Directors Mr. Rakesh Bhadrnagar, Mr. Satya Deo Sharma, Mr. RudraPrakash and Mr. Manan Chandra Guarantors: Mr. Rakesh Bhadrnagar, Mr. Satya Deo Sharma, Mr. Rudra Prakash and Mr. Manan Chandra, and Smt. Gyarsi Devi W/o Shri subhash Chand, Smt. Preeti Sharma W/o Shri Satya Dev Sharma, Smt. Gurmeet Kaur Vashishth W/o Shri R P Vashishtha and Mr. Omveer Singh and Shri Amilal	All that part and parcel of the Residential house, built on plot no. RZ-1 IA, ad-measuring 100 sq. yards, Situated at Gali no. 9, Near S hiv Mandir, Madanpuri, West Sagarpur, New Delhi -110046 in the names of Smt. Gyarsi Devi W/o Shri subhash Chand. Bounded as: East: 8' wide Gali, West: 18' wide Gali no. 9, North: House no. RZ- 15, South: House no. RZ-16	11.11.2019 Date of Possession 27.10.2020	<b>Rs. 1,21,93,092.88</b> + further interest and charges w.e.f. 01.11.2019

Date : 29.10.2020 Place: Delhi Authorised Officer, Bank of Baroda

### पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank

BRANCH OFFICE, SECTOR - 12, NOIDA, UTTAR PRADESH

#### Possession Notice [Rule 8 (1)]

Whereas the undersigned being the authorized officer of the **PUNJAB NATIONAL BANK** BO: Sector - 12, Noida, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (herein after referred to as the "said Act") and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 26-08-2019 calling upon the borrower M/s. A & S Projects (Mr. Ashish Maurya - partner/mortgagor and Mrs. Shikha Maurya - Partner) (A/C No. 3702002100044920, 4660009300000323) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 1,00,81,785.31/- (Rupees One Crore Eighty One Thousand Seven Hundred Eighty Five Rupees and Thirty One Paise Only (including interest upto 30.06.2019) with further interest thereon until payment in full, with in 60 days from the date of receipt of the said notice, under section 13(2) of the said act.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantor/mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession (symbolic) of the property described here in below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said act, read with rule 8 of the said Rule on this 26th day of October, 2020.

The borrower/guarantor/mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the said property will be subject of the charge of the Punjab National Bank for an amount of Rs. 1,00,81,785.31/- (Rupees One Crore Eighty One Thousand Seven Hundred Eighty Five Rupees and Thirty One Paise Only (including interest upto 30.06.2019) with further interest thereon until payment in full:

#### DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY(IES)

House No. 12/491, Sector 12, Indira Nagar, Lucknow.

Place : Noida  
 Date : 26.10.2020

**Authorised officer**  
**PUNJAB NATIONAL BANK**

### MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED

Registered Office: TC NO.14/2047-7, Muthoot Centre, Punnen Road, Thiruvananthapuram - 695 034, CIN NO - U65922KL2010PLC025624, Corporate Office: 12/A 01, 13th floor, Parinise Crescendo, Plot No. C38 & C39, Bandra Kurla Complex-G block (East), Mumbai-400051 TEL. NO: 022-62728517

#### PUBLIC NOTICE - AUCTION CUM SALE OF PROPERTY

Sale Of Immovable Assets Under Securitization And Reconstruction Of Financial Assets & Enforcement Of Security Interest Act, 2002

In exercise of powers contained in the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Authorized Officer of the M/s Muthoot Housing Finance Company Limited, (hereinafter referred to as the "Company") has taken the possession of under mentioned properties (hereinafter referred to as "Secured Assets") and held as security in respect of HOUSING Loan facilities granted to below mentioned customers (hereinafter referred to as "Borrowers") and further decided to sell the Secured Assets on "as is where is", "as is what is" and "whatever there is" and "As is" basis/conditions by inviting sealed tenders from public in respect of the secured debt amounting to amount in below with further interest and expenses thereon till final payment of the overdue from Borrowers

Sr. No.	Name of Borrower / Co-Borrower / Guarantor	Description of Mortgaged Property	Property Possession Date	Total Outstanding Amount	Reserve Price (Rs.)	E.M.D. (Rs.)
1	GAJENDRA GANGS SAINI MAMTA GAJENDRA SAINI UTTAR PRADESH - 201013 LAN No. :- 1510007838	FLAT NO E 62 A, FIRST FLOOR, GOVINDPURAM, GOVINDPURAM, UTTAR PRADESH - 201013	12-03-2020	506958.90/- As on 06-03-2019 and further interest @ 18% PA. till full and final payment of outstanding amount.	5,00,000/-	50,000/-

Inspection Date & Time : 09-11-2020 & 11-11-2020 at 10.00 AM to 05.00 PM Sale Date, Time & Place : 29-11-2020 at 10.00 AM to 05.00 PM  
 Muthoot Housing Finance Company Limited, B-2, First Floor, RDC, Rajnagar, Near SBI Bank, Ghazabad-201001

Intending bidders may inspect the properties on the date and time as mentioned above. Terms & Conditions of public auction:- 1) Sale is strictly subject to the terms and conditions mentioned hereunder also as the terms and condition mentioned in the offer/ tender document to be submitted by the intending bidders. 2) The property will be sold on "As is where is" and "As is what is" and "whatever there is" and "no recourse" condition, including encumbrances, if any. 3) The properties under auction can be inspected on the date & time as mentioned above. 4) Payment order deposited towards the Earnest money shall be returned to unsuccessful bidders. 5) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 6) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 7) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 8) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 9) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 10) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 11) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 12) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 13) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 14) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 15) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 16) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 17) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 18) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 19) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 20) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 21) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 22) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 23) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 24) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 25) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 26) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 27) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 28) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 29) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 30) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 31) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 32) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 33) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 34) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 35) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 36) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 37) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 38) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 39) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 40) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 41) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 42) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 43) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 44) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 45) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 46) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 47) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 48) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 49) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 50) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 51) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 52) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 53) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 54) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 55) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 56) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 57) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 58) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 59) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 60) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 61) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 62) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 63) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 64) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 65) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 66) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 67) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 68) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 69) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 70) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 71) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 72) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 73) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 74) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 75) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 76) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 77) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 78) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 79) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 80) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 81) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 82) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 83) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 84) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 85) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 86) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 87) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 88) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 89) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 90) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 91) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 92) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 93) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 94) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 95) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 96) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 97) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 98) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 99) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 100) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 101) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 102) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 103) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 104) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 105) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 106) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 107) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 108) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 109) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 110) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 111) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 112) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 113) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 114) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 115) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 116) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 117) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 118) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 119) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 120) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 121) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 122) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 123) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 124) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 125) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 126) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 127) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 128) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 129) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 130) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 131) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 132) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 133) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 134) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 135) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 136) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 137) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 138) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 139) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 140) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 141) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 142) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 143) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 144) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 145) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 146) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 147) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 148) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction. 149) The successful bidder shall be liable to pay the purchase price of the property in full and in advance to the undersigned on or before the date of the auction



